



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1575]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23, 2016/आषाढ़ 2, 1938

No. 1575]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2016/ASHADHA 2, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2016

का.आ. 2192(अ).— विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ – (1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2016 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अध्याय- II में खण्ड 3 (20) से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

नामत:-

3. पादप एवं पादप उत्पादों आदि का आयात

(20) किसी भी माल के आयात की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक की उसके साथ पीक्यू फार्म 21 में मूलक देश अथवा पीक्यू फार्म 22 में पुनः निर्यात वाले देश में किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत मूल पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र न हो।

बशर्ते कि निजी इस्तेमाल के लिए आयातित 2 किलोग्राम कट फ्लावर, फूल मालाएं, बुके, शुष्क फल/गिरियों आदि को पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र अथवा आयात परमिट के बिना उनके आयात की अनुमति दे दी जाए।

बशर्ते कि ऐसी सामग्री से मिलते जुलते सभी अन्य पदार्थ: गैर-जैविक मृदा योगशीलों, लियोनारडाइट, लिग्नाइट, विशुद्ध रेत (सिलिका, जिरकन, क्वार्ज आदि), क्वालिन आदि जैसी विशुद्ध मिट्टी, रॉक समुच्चय और पथरी, ज्वालामुखीय कूरून, चॉक, लवण, डायटोमयुक्त भूमि, कच्चा लोहा, वरमीक्यूलाइट, परलाइट, जिप्सम, जियोलाइट आदि के आयात की अनुमति बिना किसी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र अथवा किसी आयात परमिट के औद्योगिक और गैर-कृषि प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में दी जाए।

3. अनुसूची VI में संशोधन-कॉलम 2 की क्रम सं 394 की पादप संशोधन से संबंधित अनुसूची VI (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 2003 और क्रम संख्या V के सापेक्ष संबंधित प्रविष्टियों को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

क्र.सं.	पादप प्रजाति	पादप सामग्री की श्रेणी	मूल देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में समावेशित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशेष परिस्थितियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
394	V ऐसी सामग्री से मिलते जुलते पदार्थ : गैर-जैविक मृदा योगशीलों, लियोनारडाइट, लिग्नाइट, विशुद्ध रेत (सिलिका, जिरकन, क्वार्ज आदि), क्वालिन आदि जैसी विशुद्ध मिट्टी, रॉक समुच्चय और पथरी, ज्वालामुखीय कूरून, चॉक, लवण, डायटोमयुक्त भूमि, कच्चा लोहा, वरमीक्यूलाइट, परलाइट, जिप्सम, जियोलाइट आदि	किसी भी रूप में (औद्योगिक और गैर कृषि प्रयोजन के लिए)	कोई भी देश	शून्य	पादप मलबे आदि जैसी गैर जैविक सामग्री से मुक्त

[फा. सं. 8-29/2016-पीपी-II (भाग)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: पादप संशोधन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को संख्या का.आ. 1322 (असा.) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी, 2004 के का.आ. 167(असा.), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(असा.), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(असा.), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(असा.), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462(असा.), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121(असा.), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353(असा.), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (असा.), 06 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (असा.), 03 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069(असा.), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3(असा.), 08 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847(असा.), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(असा.), 09 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286(असा.), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390(असा.), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(असा.), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298(असा.), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (असा.), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095(असा.), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (असा.), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516(असा.), 04 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711(असा.), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052(असा.), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887(असा.), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845(असा.), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (असा.), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(असा.), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799(असा.), 28 मई, 2013 के

का.आ.1378(असा.), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(असा.), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(असा.), 13 जून, 2014 के का. आ. 1508(असा.), 27 जून, 2014 के का.आ. सं. 1632(असा.), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2320 एवं 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2542(असा.) दिनांक 11 नवंबर, 1914 के का.आ. 2879(असा.), 10 दिसंबर, 2014 के का.आ.सं. 3114(असा.), 26 मई, 2015 के का.आ. सं. 1413 (असा.), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ.सं. 2496(असा.), 13 जनवरी 2016 के का.आ. सं. 101(असा.), 7 मार्च, 2016 के का.आ.सं. 608(असा.), तथा 25 मई, 2016 के का.आ.सं. 1873 के माध्यम से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2016

S.O. 2192 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. **Short title and Commencement.**- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourth Amendment) Order, 2016.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing entries relating to clause **3 (20)** shall be replaced with the following entries, namely:-

‘3. Import of plants, plant products etc.

(20) No consignment shall be permitted import unless accompanied by an original Phytosanitary Certificate issued by an authorized officer at the country of origin in PQ Form 21 or at the country of re-export in PQ Form 22;

Provided that cut flowers, garlands, bouquets, dry fruits/nuts etc., weighing not more than two kilograms imported for personal consumption may be allowed to be imported without a Phytosanitary Certificate or an import permit.

Provided that all consignments of Similar material: Inorganic soil additives, Leonardite, Lignite, Pure sand (Silica, Zircon, Quartz, etc.), Pure clay like kaolin etc., Rock aggregates and Gravel, Volcanic pumice, Chalk, Salt, Diatomaceous earth, Iron ore, Vermiculite, Perlite, Gypsum, Zeolite etc., may be allowed to be imported in any form, for industrial and non agricultural purpose, without a Phytosanitary Certificate or an import permit.

2. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 for serial number 394, in column 2 and the entries relating thereto against s.no.v the following entries shall be substituted, namely:-

Sl.No.	Plant Species	Category of plant material	Country of origin	Additional declaration required to be incorporated into Phyto sanitary Certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
394	V. Similar material: Inorganic soil additives, Leonardite, Lignite, Pure sand (Silica, Zircon, Quartz, etc.), Pure clay like kaolin etc., Rock aggregates and Gravel, Volcanic pumice, Chalk, Salt, Diatomaceous earth, Iron ore, Vermiculite, Perlite, Gypsum, Zeolite etc.,	In any form (for industrial and non agricultural purpose)	Any Country	Nil	Free from Organic matter like plant debris etc.

[F. No. 8-29/2016-PP.II (part)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873(E), dated 31st October 2006, S.O. 2074(E), dated 6th December 2006, S.O. 2069(E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845(E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296(E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014 and S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014P, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015 and S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, No. 608(E) dated 7th March, 2016 and S.O. No.1873 dated 25th May, 2016.